

February 3, 2025

The Secretary  
BSE Ltd.  
P J Towers, Rotunda Bldg.,  
Dalal Street, Fort  
Mumbai – 400 001

**Scrip Code: 500414**

Dear Sir,

**Sub: Newspaper Publication of un-audited quarterly Financial Results**

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed Copies of Newspaper Advertisement regarding un-audited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended on 31<sup>st</sup> December 2024 published on 1st February 2025 in Business Standard (English) in New Delhi and Mumbai edition and Business Standard (Hindi) in New Delhi edition.

You are requested to take the above on your records.

Thanking you,  
For Timex Group India Limited

Dhiraj Kumar Maggo  
Vice President – Legal, HR and Company Secretary

**ROHA HOUSING FINANCE PRIVATE LIMITED**  
 Corporate Office : Unit No. 1117 & 1118, 11th Floor, World Trade Tower, Sector 16, Noida, Uttar Pradesh - 201 301.

**POSSESSION NOTICE (Under Rule 8 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)**

Whereas the undersigned being the authorized officer of Roha Housing Finance Private Limited (hereinafter referred to as "RHFPL"), Having its registered office at JTT House, A 44/45, Road No.2, MIDC, Andheri East, Mumbai - 400 093 under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002), and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated mentioned below under Section 13(2) of the said Act calling upon you being the borrowers (names and addresses mentioned below) to repay the amount mentioned in the said notice and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower mentioned herein below having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers mentioned herein below and to the public in general that undersigned has taken **Symbolic Possession** of the property described herein below in exercise of powers conferred on me under sub section (4) of section 13 of the Act read with the Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. The borrowers mentioned here in above in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the said property and any dealings with the property will be subject to the Charge of Roha Housing Finance Private Limited for an amount as mentioned herein under and interest thereon. The Borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

| S. No. | Name of the Borrower(s) / Co-Borrower (s)/Loan A/c No. / Branch   | Schedule of the Properties  | Demand Notice Date & Amount                  | Date of Possession |
|--------|---|---|--|--------------------|
| 1.     | <b>LAN:</b> HLNDCSCPR00005000059/ Branch: Noida<br><b>1. Devender Sharma 2. Sunita W/o Devender</b><br>Add: B 172 Ashok Nagar, Sikkar Bazar Chowk, Delhi, New Delhi-110093<br>Add2: Property No. B-72, Area Measuring 100 Sq. Yds., Part Of Plot Bearing No. 172, Total Admeasuring 200 Sq. Yds., Part Of Khasra No. 638, Situated At Village Saboli, Abadi Of Ashok Nagar, Shahdara, Delhi-110093  | <b>All That Part And Parcel Of Complete Property Bearing:-</b> Property No. B-72, Area Measuring 100 Sq. Yds., Part Of Plot Bearing No. 172, Total Admeasuring 200 Sq. Yds., Part Of Khasra No. 638, Situated At Village Saboli, Abadi Of Ashok Nagar, Shahdara, Delhi-110093 | <b>12.06.2024</b><br>₹<br><b>24,67,097/-</b> | <b>30-01-2025</b>  |
| 2.     | <b>LAN:</b> LAJANALPCM000005010565/ Branch: Janakpuri<br><b>1. Arun S/o Hariom Nagar 2. Dropadi W/o Hari Om</b><br>Add: A-68 Gali No 4, Bank Colony, Delhi, New Delhi-110093 Add2: Plot No 160, Krishna Vihar, Phase 2 Kh No 1623 Metro City Behta Hazipur, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201102 Add3: Freehold Residential Vacant Plot Area Measuring 162 Sq. Yards, Out of Khasra No 1623/1situated At Residential Colony Krishna Bihar Phase-3 Village Behta Hajipur, Pargana Loni Tehsil & Distt. Ghaziabad UP | <b>All that part and parcel of the property bearing,</b> Freehold Residential Vacant Plot Area Measuring 162 Sq. Yards, Out of Khasra No 1623/1situated At Residential Colony Krishna Bihar Phase-3 Village Behta Hajipur, Pargana Loni Tehsil & Distt. Ghaziabad UP          | <b>12.06.2024</b><br>₹<br><b>15,34,553/-</b> | <b>30-01-2025</b>  |

Place : **Uttar Pradesh** Sd/- Authorised Officer  
Date : **01.02.2025** Roha Housing Finance Private Limited

**इंडिया एक्ज़िम बैंक**  
**India Exim Bank**  
**EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA**

**PUBLIC NOTICE**

1. The Bank's Committee for Classification of Borrower as Wilful Defaulters (Committee) had initiated proceedings to classify/ identify delinquent Borrowers/ Guarantors/ Directors as Wilful Defaulters in accordance with RBI Master Circular on Wilful Defaulters dated July 01, 2015 (since repealed) and as per extant RBI Master Circular on Wilful Defaulters dated July 30, 2024 ("the circular").

2. Accordingly, Show Cause Notice (SCN) was issued to the following Director:

| Name of the Party   | Role of the Party | CIN/ DIN No. | Date of SCN   | Date of Personal Hearing |
|---------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------------------|
| Mr. Virkaran Awasty | Managing Director | 01121761     | July 22, 2024 | February 18, 2025        |

3. The SCN sent through RPAD to Mr. Virkaran Awasty returned undelivered stating that addressee left without instruction.

4. Accordingly, it is requested that Mr. Virkaran Awasty may collect copy of SCN issued to him on any working days between 12/02/2025 to 15/02/2025, anytime between 10 am to 6 pm from our Head Office at Centre One Building, Floor 21, World Trade Centre Complex, Cuffe Parade, Mumbai - 400 005. Any correspondence regarding the Wilful Defaulter proceedings may be sent to [cbwd@eximbankindia.in](mailto:cbwd@eximbankindia.in). Alternatively, our landline number 022-22172632 may be used for contacting us.

5. Further, it may kindly be noted that an opportunity for personal hearing at our Head Office has been offered to Mr. Virkaran Awasty, as per details mentioned at para 2 above. In the event, Mr. Virkaran Awasty fails to collect the SCN or attend the personal hearing, the Committee may proceed as per "the circular", which may culminate in classifying you as Wilful Defaulter.

Place: Mumbai  
Date: 1<sup>st</sup> February, 2025

**SHIRIAM Finance Ltd.**  
 Registered Off.: Sri Towers, Plot No. 14A, South Phase Industrial Estate, Guindy, Chennai 600 032  
 Branch Off: UGF-12-21, Upper Ground Floor, 14, Amba Deep Building, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi -110001  
 Website: [www.shriramfinance.in](http://www.shriramfinance.in)

**SYMBOLIC POSSESSION NOTICE**

Note: It is informed that "SHIRIAM CITY UNION FINANCE LIMITED" has been amalgamated with "SHIRIAM TRANSPORT FINANCE LIMITED" as per order of NCLT, Chennai. Subsequently the name of "SHIRIAM TRANSPORT FINANCE LIMITED" was changed as "SHIRIAM FINANCE LIMITED" with effect from 30.11.2022 vide Certificate of Incorporation pursuant to change of name dated 30-11-2022.

Whereas, the undersigned being the authorised officer of Shriram Finance Limited (SFL) under the provisions of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (said Act) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (said Rules) issued demand notices to the Borrowers details of which are mentioned in the table below to repay the amount mentioned in the said demand notices. The Borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers and the public in general that the undersigned has taken Symbolic Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said Rules, on this 29.01.2025

The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of Shriram Finance Ltd. for an amount as mentioned herein below with interest thereon.

| Borrower's Name & Address  |   |
|--|---|
| 1)MR. VINIT GUPTA S/O DEVENDRA GUPTA (Borrower)                        | Plot No. 19, Second Floor, New Krishna Nagar, Jain Mandir, Krishna Nagar, East Delhi, Delhi- 110051 |
| Also at- B-40, Third Floor East Krishna Nagar Delhi, Delhi- 110051     |   |
| 2)MRS. POOJA GUPTA W/O VINIT GUPTA (Co-Borrower/Guarantor)             | Plot No. 19, Second Floor, New Krishna Nagar, Gali No 3, Delhi, Delhi- 110051                       |
| Also at- B-40, Third Floor East Krishna Nagar Delhi, Delhi- 110051     |   |
| 3)M/S HOME CRAZE INTERIORS (Co-Borrower/Guarantor) (Prop. Vinit Gupta) | B-40, Third Floor East Krishna Nagar Delhi, Delhi- 110051   |

| Amount due as per Demand Notice   |                                |
|---|--------------------------------|
| Rs. 28,04,671/- (Twenty-Eight Lakhs Four Thousand Six Hundred Seventy-One Only) as on 11-Nov-2024 | Demand Notice Date: 16.11.2024 |
| Loan Account No. RSSDLTF191290003, RSSDLLP2202040005  |                                |

| Description of Property  |  |
|--|--|
| Second Floor & Third Floor of Build-up Property Bearing No. 19 (Part), Measuring area 66.34 Sq. Yds, i.e. 55.46 Sq. Mtrs. Covered Area 109 SQ. Mtrs. (54.5 Sq. Mtrs. On Each Floor), Consisting of its two Bed Rooms, One Drawing Cum Dining Room Set on each floor, fitted with electricity and Tap Water Connections along with the concerned meters, with terrace rights, with common rights to use the entrance, Stairs, Passage, one reserve Car Parking & one car, two two-wheeler parking on still floor etc. Along with the other services which may be common in future, with water tanky, more details are shown in site plan which be annexed herewith, with undivided impartible proportionate ownership rights in the land of the plot [1/2 area of 66.34 Sq. Yds. i.e. equal to 33.17 Sq. Yds.], Out of khasra No. 2/26, Situated in the Abadi of new krishan nagar in the area of village Khureji Khas, ILLAQA, Shahdara, Delhi-110051 and the building is bounded as follow- | EAST- OTHER'S PROPERTY, WEST-OTHER'S PROPERTY NORTH- ROAD, SOUTH- ROAD |

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Place: Delhi Sd/- Authorised Officer  
Date : 27-01-2025 & 29-01-2025 Shriram Finance Limited

**PHYSICAL POSSESSION NOTICE**

**ICICI Home Finance** Registered office: ICICI Bank Towers, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai- 400051  
 Corporate Office: ICICI HFC Tower, JB Nagar, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai- 400059  
 Branch Office: 2nd floor, SCO-319, Sec -29, Gurgaon, Haryana -122001

Whereas the undersigned being the Authorized Officer of ICICI Home Finance Company Limited under the Securitisation, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) rules 2002, issued demand notices upon the borrowers mentioned below, to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice.

As the borrower failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/ her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the below-mentioned dates. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of ICICI Home Finance Company Limited. The Borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

| Sr. No. | Name of the Borrower/ Co-borrower/ Loan Account Number  | Description of property/ Date of Possession  | Date of Demand Notice/ Amount in Demand Notice (Rs.) | Name of Branch       |
|---------|---|--|--|----------------------|
| 1.      | Shiva Kumar (Borrower), Meenakshi Sharma (Co-Borrower), LHGU00001354436. Date of Possession- 30-01-2025 | 23 Unit No 23 First Floor Tower B Plaza Sector 106 Gurgaon 23 Gurgaon-122003 (Ref. LAN No. LHGU00001354436), Bounded By- North: Unit No.22, South: Unit No.24, East: Entry/ Lobby, West: Unit 14, / LHGU00001354436. | 12-05-2023 Rs. 36,54,511/-                           | Gurgaon 1 (Sec 29)-B |

The above-mentioned borrowers(s)/ guarantors(s) are hereby given a 30 day notice to repay the amount, else the mortgaged properties will be sold on the expiry of 30 days from the date of publication of this Notice, as per the provisions under the Rules 8 and 9 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002.

Date : February 01, 2025, Place: Gurgaon Authorized Officer, ICICI Home Finance Company Limited

**TACENT PROJECTS LIMITED**  
 (Formerly known as Rahul Merchandising Limited)  
 Regd. Office: H NO. 1/61-B Vishwas Nagar, Shahdara, East Delhi - 110032  
 Email id: [rahulmerchandising@gmail.com](mailto:rahulmerchandising@gmail.com), Website: [www.rahulmerchandising.in](http://www.rahulmerchandising.in)  
 CIN: L74999DL1993PLC052461, Ph: 7042391126

**Extract of the Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter Ended on 31 December, 2024**  
 (Regulation 47(1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015) (Rs. In lakhs except EPS)

| Particulars  | (Rs. In lakhs except EPS) |                        |                        |                        |                        |                      |
|--|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
|  | Quarter Ended             |                        | Nine Months Ended      |                        | Year Ended             |                      |
|  | 31.12.2024 (Unaudited)    | 30.09.2024 (Unaudited) | 31.12.2023 (Unaudited) | 31-12-2024 (Unaudited) | 31-12-2023 (Unaudited) | 31.03.2024 (Audited) |
| Total income from operations   | 0.00                      | 0.00                   | 6.28                   | 2.75                   | 6.28                   | 5.0                  |
| Other Income   | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                   | 0.1                  |
| Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)  | (4.39)                    | (2.70)                 | (2.39)                 | (8.36)                 | (2.39)                 | (2.77)               |
| Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)   | (4.39)                    | (2.70)                 | (2.39)                 | (8.36)                 | (2.39)                 | (2.77)               |
| Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)  | (4.39)                    | (2.70)                 | (2.39)                 | (8.36)                 | (2.39)                 | (2.77)               |
| Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)) | (4.39)                    | (2.70)                 | (2.39)                 | (8.36)                 | (2.39)                 | (2.77)               |
| Equity Share Capital   | 351.23                    | 351.23                 | 351.23                 | 351.23                 | 351.23                 | 351.23               |
| Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year  |                           |                        |                        |                        |                        | (373.05)             |
| Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) for continuing and discontinued operations:-   |                           |                        |                        |                        |                        |                      |
| 1. Basic   | (0.122)                   | (0.077)                | (0.068)                | (0.238)                | (0.068)                | (0.08)               |
| 2. Diluted   | (0.122)                   | (0.077)                | (0.068)                | (0.238)                | (0.068)                | (0.08)               |

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Yearly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the website of the Stock Exchange [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the website of the Company at [www.rahulmerchandising.in](http://www.rahulmerchandising.in)

For Tacent Projects Limited (Formerly Known as Rahul Merchandising Limited)  
 Sd/- (Vaibhav Goel)  
 Date: 31.01.2025 (Whole time Director)  
 Place: Delhi DIN: 07899594

**Pfizer**  
**PFIZER LIMITED**  
 CIN: L24231MH1950PLC008311  
 The Capital, 1802/1901, Plot No.C-70, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400 051 Tel: +91 22 6693 2000 Fax: +91 22 2654 0274  
 Email ID: [contactus.india@pfizer.com](mailto:contactus.india@pfizer.com) Website: [www.pfizerltd.co.in](http://www.pfizerltd.co.in)

**Extract of Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine months ended 31 December 2024**  
 (₹ in crore except earnings per share)

| Particulars   | 3 months ended 31 December 2024 |           | Year to date figures for nine months ended 31 December 2024 |           | Corresponding 3 months ended 31 December 2023 |           |
|---|---------------------------------|-----------|---|-----------|---|-----------|
|   | Unaudited                       | Unaudited | Unaudited   | Unaudited | Unaudited                                     | Unaudited |
| 1 Total Income  | 580.75                          | 1,817.11  | 575.82  |           |   |           |
| 2 Net Profit for the quarter/year (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)  | 172.44                          | 590.29    | 167.99  |           |   |           |
| 3 Net Profit for the quarter/year before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)   | 172.44                          | 590.29    | 175.94  |           |   |           |
| 4 Net Profit for the quarter/year after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)  | 127.60                          | 436.66    | 129.98  |           |   |           |
| 5 Total Comprehensive Income for the quarter/year [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | 127.06                          | 435.05    | 129.15  |           |   |           |
| 6 Equity Share Capital  | 45.75                           | 45.75     | 45.75   |           |   |           |
| 7 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year                                       | -                               | -         | -   |           |   |           |
| 8 Earnings per share (of ₹10/- each) (not annualised)*  |                                 |           |   |           |   |           |
| Basic:  | 27.89*                          | 95.44*    | 28.42*  |           |   |           |
| Diluted:  | 27.89*                          | 95.44*    | 28.42*  |           |   |           |

Note: 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchanges websites viz. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com). The same is also available on the Company's website at [www.pfizerltd.co.in](http://www.pfizerltd.co.in)

January 31, 2025  
 For Pfizer Limited  
 Meenakshi Nevatia  
 Managing Director

**TIMEX GROUP INDIA LIMITED**  
 CIN : L33301DL1988PLC033434  
 Regd. Office: E-10, Lower Ground Floor, Lajpat Nagar- III, New Delhi-110024  
 Tel: 91-120-4741300, Email: [investor.relations@timex.com](mailto:investor.relations@timex.com), Website: [www.timexindia.com](http://www.timexindia.com)

**Extract of Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended 31 December, 2024**  
 (Rs. in lakhs except per share data)

| Particulars  | Quarter ended 31 December 2024 (un-audited) | Nine months ended 31 December 2024 (un-audited) | Quarter ended 31 December 2023 (un-audited) | Nine months ended 31 December 2023 (un-audited) |
|--|---|---|---|---|
| Total income from operations   | 11994                                       | 40269   | 9420  | 32685   |
| Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)  | 263   | 2973  | -199  | 1838  |
| Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)   | 263   | 2973  | -199  | 1838  |
| Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)  | 194   | 2218  | -149  | 1376  |
| Total Comprehensive Income for the period (comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)) | 194   | 2218  | -149  | 1376  |
| Equity Share Capital (Face Value of Re. 1 each)  | 1010  | 1010  | 1010  | 1010  |
| Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year  | -   | -   | -   | -   |
| Earnings Per Share (of Re. 1 each) Basic & Diluted*  | 0.07  | 1.83  | -0.15                                       | 1.01  |

\* Not Annualised

Notes:-  
 1. The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors in its meeting held on January 30, 2025.  
 2. The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter and nine months ended 31 December, 2024 filed with the BSE Ltd. under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter and nine months ended 31 December, 2024 are available on the Stock Exchange website ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and on Company website ([www.timexindia.com](http://www.timexindia.com)). The results can also be accessed by scanning the QR code given below.

For and on behalf of the Board of Directors  
**Timex Group India Limited**  
 Sd/-  
**Deepak Chhabra**  
 Managing Director  
 DIN: 01879706

Place : Noida  
 Date : 30 January, 2025

**homefirst**  
 We'll take you home

**Home First Finance Company India Limited**  
 CIN: L65990MH2010PLC240703  
 Website: [homefirstindia.com](http://homefirstindia.com)  
 Phone No.: 18003008425 Email ID: [loanfirst@homefirstindia.com](mailto:loanfirst@homefirstindia.com)

**POSSESSION NOTICE**

**REF: POSSESSION NOTICE UNDER SUB-RULE (1) OF RULE 8 OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002**

WHEREAS the undersigned being the Authorized Officer of HOME FIRST FINANCE COMPANY INDIA LIMITED, pursuant to demand notice issued on its respective dates as given below, under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act No. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(2) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 calling upon you/Borrowers, the under named to pay outstanding dues as within 60 days from the date of receipt of respective notices. You/Borrowers all, however, have failed to pay the said outstanding dues within stipulated time, hence HOME FIRST FINANCE COMPANY INDIA LIMITED are in exercise and having right as conferred under the provision of sub section (4) of section 13 of SARFAESI ACT, 2002 read with rules thereunder, taken POSSESSION of the secured assets as mentioned herein below:

| Sr. No | Name of Borrowers/ Co-Borrowers/ Guarantors | Description of Mortgaged Property   | Date of Demand Notice | Total O/s as on date of Demand Notice (in INR) | Date of possession |
|--------|---|---|-----------------------|--|--------------------|
| 1.     | Mahaveer Singh-Sayar Devi                   | House-Plot No- 197, Scheme darshan City-Ist, AT village vatika, Sanganer jaipur,Jaipur, Rajasthan-302039. Bounded By : East by - Road 30, West by - Plot No. 232 & 233, North by - Other Land, South by - Plot No. 198. | 03-Nov-24             | 484,740  | 29-Jan-25          |

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower / Guarantor and the public in general that the undersigned has taken Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rule on the date mentioned above.

The BORROWERS/ GUARANTORS and the PUBLIC IN GENERAL are hereby cautioned not to deal with the above referred Properties/Secured Assets or any part thereof and any dealing with the said Properties/Secured Assets shall be subject to charge of HOME FIRST FINANCE COMPANY INDIA LIMITED for the amount mentioned hereinabove against Properties/Secured Assets which is payable with the further interest thereon UNTIL payment in full.

The borrower's attention is invited to the provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.

Place: Rajasthan Sd/- Authorised Officer  
Date: 01-02-2025 Home First Finance Company India Limited



**PSPCL Punjab State Power Corporation Limited**  
 Regd. Office: PSEB Head Office, The Mall Patiala- 147001  
 Corporate Identity No. U40109PB2010SGC033813,  
 Website: www.pspcl.in (Contact Number 9646118754)

**Tender Enquiry No. 331/HPS/ED-JS-431 VOL-II Dated: 30.01.2025**

Dy.CE/ Hydel Projects, PSPCL, Shed A-3, Shakti Vihar, PSPCL, Patiala Invites E-Tender for Design, manufacturing, supply, supervision of installation and commissioning of 03 nos Float cum Boost Charger for 02 nos 220V, 400AH Battery banks of Shan Power House, Joginder Nagar, H.P.  
 For detailed NIT & tender specification please refer to <https://eproc.punjab.gov.in> from 05.02.2025 (11:00 AM) onwards.  
**Note:** Corrigendum & addendum, if any will be published online at <https://eproc.punjab.gov.in>  
 76155/12/3865/2023/41315 **C 67/25**

**बँक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra**  
 Asset Recovery Branch, Navi Mumbai  
 Shop No. G-9 & 10, Lokmangya Tilak, Shopping Centre, Plot No. 8, Sector-1, Vashi, Navi Mumbai-400703.  
 E-mail: bmrgr2259@mahabank.co.in : bom2259@mahabank.co.in  
 Phone: 022-20875503

**Head Office :** Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune- 411005

**AJ91/SARFAESI/Possession Notice/2024-25/RSNT Date: 29-01-2025**  
**POSSESSION NOTICE**  
**[Appendix IV under the Act-Rule-8(1)]**

WHEREAS, The undersigned being the Authorized Officer of Bank of Maharashtra, under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act, read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 issued a Demand Notice dated 09.12.2016 calling upon the Borrowers, M/s R S Enterprises, Proprietor Mr. Rajendra Vitthal Shinde and Guarantors Mr. Prabhakar S. Aglawe, Mrs. Pratibha P. Aglawe to repay the amount mentioned in the said notice being Rs. 3,84,93,122.08 (Rupees Three Crores Eighty Four Lakh Ninety Three Thousand One Hundred Twenty Two and Eight Paise Only) plus unapplied interest @13.20 pa w.e.f. 28.08.2016, within 60 days from the date of receipt of the said Notice.

The Borrowers having failed to repay the outstanding amount, notice is hereby given to the Borrowers and the Public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said Rules, on this 29<sup>th</sup> Day of January of the year 2025. The Borrowers in particular and the Public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the aforesaid property will be subject to the charge of the Bank of Maharashtra for an amount mentioned above. The borrower's attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. The details of the properties mortgaged to the Bank and taken possession by the Bank are as follows:

All the piece and parcel of property situated at Shop No 01 adm 240.93 Sq.Ft Carpet, Shop No. 2 adm. 169.67 Sq. Ft and Shop No. 3 adm. 161.51 Sq. Ft Total adm. 572.12 Sq. Ft at Ground Floor in building name "Park View", Plot No 205, Village Murbi, Sector-19, Kharghar, Navi Mumbai, Taluka-Panvel, Dist-Raigad, Maharashtra

Date : 29.01.2025 Chief Manager & AUTHORISED OFFICER  
 Place : Navi Mumbai Asset Recovery Branch, Navi Mumbai

**बँक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra**  
 Asset Recovery Branch, Navi Mumbai  
 Shop No. G-9 & 10, Lokmangya Tilak, Shopping Centre, Plot No. 8, Sector-1, Vashi, Navi Mumbai-400703.  
 E-mail: bmrgr2259@mahabank.co.in : bom2259@mahabank.co.in  
 Phone: 022-20875503

**Head Office :** Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune- 411005

**AJ91/SARFAESI/Possession Notice/2024-25/NFS Date: 24-01-2025**  
**POSSESSION NOTICE**  
**[Appendix IV under the Act-Rule-8(1)]**

WHEREAS, The undersigned being the Authorized Officer of Bank of Maharashtra, under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 issued a Demand Notice dated 07.10.2022 calling upon the Borrowers, Mr. Madhukar Dada Raste, Mr. Ramachandra Dada Raste to repay the amount mentioned in the said notice being Rs. 67,59,215.00 (Rupees Sixty Seven Lakh Fifty Nine Thousand Two Hundred and Fifteen Only) plus unapplied interest thereon apart from penal interest, cost and expenses, within 60 days from the date of receipt of the said Notice.

The Borrowers having failed to repay the outstanding amount, notice is hereby given to the Borrowers and the Public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said Rules, on this 24<sup>th</sup> Day of January of the year 2025. The Borrowers in particular and the Public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the aforesaid property will be subject to the charge of the Bank of Maharashtra for an amount mentioned above. The borrower's attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. The details of the properties mortgaged to the Bank and taken possession by the Bank are as follows:

All the piece and parcel of property situated at Flat No 403, 4th Floor, Building No B-1, Auram, Diva- Shil Road, Mouja-Dawadi-11, Taluka-Kalyan, Dist-Thane, Maharashtra. Bounded as - On or towards the North : S.No.5, Hissa No. 8, On or towards the East : S.No. 5, Hissa No. 3, On or towards the West : S.No. 5, Hissa No. 6, On or towards the South : Proposed D.P.Road

Date : 24.01.2025 Chief Manager & AUTHORISED OFFICER  
 Place : Navi Mumbai Asset Recovery Branch, Navi Mumbai

**केनरा बँक Canara Bank**  
 भारत सरकार का उद्योग A Government of India Undertaking

**REGIONAL OFFICE NASHIK**  
 4 th floor, Roongta Supremus, Tidke Colony, Chandak Circle, Nashik, 422002

**SALE NOTICE E-AUCTION DATE : 20/02/2025**

**E-AUCTION SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 READ WITH PROVISIO TO RULE 8 (6) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002**  
 Notice Is Hereby Given To The Public In General And In Particular To The Borrower(s) And Guarantor(s) That The Below Described Immovable Property Mortgaged/charged To The Secured Creditor, The Symbolic/Physical Possession Of Which Has Been Taken By The Authorised Officer Of Canara Bank, Will Be Sold On "as Is Where Is", "as Is What Is" And " Whatever There Is" On 20/02/2025 For Recovery of below Mentioned dues of the of Canara Bank from Respective Borrower / Guarantor mentioned below.

| Sr. No. | Name and Address of Borrowers / Guarantors  | Description of Immovable Properties  | Possession Symbolic/Physical | Reserve Price (Rs.) | EMD Rs.        | Amount O/s. Liability (Rs.)                              | Bid Submission Date                    | Encumbrances | Authorized Officer Contact                            |
|---------|---|--|------------------------------|---------------------|----------------|--|--|--------------|---|
| 1.      | <b>Borrower: Mr. Amrut Govinda Mali</b><br>Address 1: Flat No. 61, Pranjali Societies, Vrundavan Nagar, Konark Nagar, Adgaon Shivar, Adgaon, Nashik-422003<br><b>Guarantor: Mr. Ganesh Sukhdeo Wankhede</b><br>Address 1: Flat No. 7, Sai Darshan Apartment, Hari Om Nagar, Nashik Road, Nashik | 1. All that part and parcel of Flat no. 08, Third Floor (adm. area 123.51 sq. mtrs. built up) in the building known as "Jai Dhan Laxmi Aangan Apartment", Plot No. 09, Gat No. 1995/2, (644), Ozar Shiwar, Ozar, Tal. Niphad, Dist. Nashik<br><b>Boundaries of Flat: North : Passage, Staircase &amp; Lift South : Marginal Space East: Marginal Space West: Adj. Flat No. 09</b>                            | PHYSICAL POSSESSION          | Rs. 31,00,000/-     | Rs. 3,10,000/- | Rs.55,93,212.46/- + Interest applicable & other Charges  | On or Before Dt 20/02/2025 at 11:00 am | NOT KNOWN    | Nasik Jail Road Branch, +91 9404553690 +91 9634956341 |
| 2.      | <b>Borrower: Dhananjay Vikram More</b><br><b>Co-Borrower: Mrs. Malvi Vikram More</b><br>Address: Plot no.4, Bhoi Society Deopur Dhule District Dhule -424001<br><b>Guarantor: Mr. Yashwant Bhatu Bhoi</b><br>Address: Plot No. 64, Bhagatsingh Society, Deopur, District Dhule-424002           | All that part and parcel of Plot No. 4, out of S. No. 62/2B, adm. 279.70 sq. mtrs. alongwith constructed house thereon, Bhoi Society, Near Nhavi Colony, behind Shree Mangalam Lawns, Close To Mumbai Agra National Highway village Deopur, District Dhule Bounded as under: East: Plot No. 5 West: Plot No. 3 North: Survey No. 62/1 South: Road  | SYMBOLIC POSSESSION          | Rs. 42,00,000/-     | Rs. 4,20,000/- | Rs.44,82,038.49/- + Interest applicable & other Charges  | On or Before Dt 20/02/2025 at 11:00 am | NOT KNOWN    | Dhule Main Branch, +91 9404553690                     |
| 3.      | <b>Borrower: Mr. Firoj Khan Hayat Khan Pathan</b><br>Address 1: At Post Ojhar MIG, House No. 1004, Chandani Chowk, Ojhar MIG, Taluka Niphad, District: Nashik   | All that part and parcel of All that part and parcel of Flat No. 205, (adm. area 35.20 sq. mtrs.), 2nd Floor, Gram Panchayat House No. 1186/A/Part13, in the building known as Abdullah Tower, on CTS No. 721/B/2, Near Chandni Chowk, Khwaja Garib Nawaz Colony at village Ojhar, Tal. Niphad, Dist. Nashik-422207 Bounded as under: East: Flat No 204 West: Road South: Marginal space North: Flat No. 206 | PHYSICAL POSSESSION          | Rs 10,50,000/-      | Rs. 1,05,000/- | Rs.12,45,264.82/- + Interest applicable & other Charges  | On or Before Dt 20/02/2025 at 11:00 am | NOT KNOWN    | Pimpalgaon Baswan Branch, +91 9404553690              |
| 4.      | <b>Borrower: Mr. Manoj Krishna Gaidhani</b><br><b>Co-Borrower : Mrs. Ragini Manoj Gaidhani</b><br>Address: 2283 Gaidhani Wada, Ganesh Tek, Panchavati Nashik-422003   | All that part and parcel of Flat No. 402, Fourth Floor, Deshpande Heights Apartment, City Survey No. 5342 & 5343, Beside Seeta Bhavan, B/H Kalaram Mandir, On Muthe Lene Road, Shani Chowk, Mauje Nashik Gaothan, Nashik-422003 Bounded as under: East : Marginal Space West: Passage & Flat No.401 South: Adj. Property North: Adj. Property  | SYMBOLIC POSSESSION          | Rs 38,00,000/-      | Rs. 3,80,000/- | Rs.34,82,550.93/- + Interest applicable & other Charges  | On or Before Dt 20/02/2025 at 11:00 am | NOT KNOWN    | Nasik Morwad Branch, +91 9404553690                   |
| 5.      | <b>Borrower: M/S Sanskruti Sadi Centre</b><br><b>Prop. Mrs Dipali Bhushan Kale</b><br><b>Guarantor: Mr. Bhushan Ganpatrao Kale</b><br>Address: Laxmi Niwas, NDCC Colony, Chichkhed Road, Pimpalgaon Baswant Taluka Niphad Nasik Maharashtra-422209  | All that part and parcel of Shop No1 Shree Varadvinayak Apartment, Ganesh Nagar, plot no 1 & 2, S no 550/4/2/2, Chinchkhed road, Pimpalgaon Baswant Tal Niphad Dist. Nashik in the name of Mrs Dipali Bhushan Kale and Mr. Bhushan Ganpatrao Kale And bounded as East- Shop no 2 West- Marginal Space North-Parking South-Open space & road  | SYMBOLIC POSSESSION          | Rs. 25,00,000/-     | Rs. 2,50,000/- | Rs. 13,97,675.31/- + Interest applicable & other Charges | On or Before Dt 20/02/2025 at 11:00 am | NOT KNOWN    | Pimpalgaon Branch, +91 8077566780 +91 9403006384      |

For detailed terms and conditions of the sale please refer the link "E-Auction" provided in PSB Alliance Ltd. website (<https://ebkray.in/>) or may contact Branch Manager, Canara Bank, during office hours on any working day. Portal of E-Auction: <https://ebkray.in/>  
 Date : 29/01/2025 Place : Nashik

Authorised Officer  
Canara Bank

**Public Notice in Form XIII of MOFA (Rule 11(9) (e))**  
**District Deputy Registrar, Co-operative Societies, Mumbai City (3)**  
**Competent Authority,**  
**U/s 5A of the Maharashtra Ownership Flats Act, 1963.**  
 Mhada Building, Ground Floor, Room No. 69, Bandra (E), Mumbai - 400051.

**No.DDR-3/Mum./ Deemed Conveyance/Notice/335/2025 Date: - 31/01/2025**  
 Application u/s 11 of Maharashtra Ownership Flats (Regulation of the Promotion of construction, Sale, Management and Transfer) Act, 1963

**Public Notice**  
**Application No. 03 of 2025**

**Ahiya Premises Co-op. Hsg. Soc. Ltd.,** Plot No.53, CTS No. G/406, Junction of Main Avenue & 16th Road, Bazzard Scheme, Santacruz (W), Mumbai 400 054. ....**Applicant Versus 1) Mr. Jehangir Gaddar, C/o Ahiya Associates, 232, Dadabhai Naorji Road, Fort, Mumbai 400 001, 2) M/s. Ahiya & Associates (Projects) (A partnership firm) Having place of business at- 232, Dadabhai Naorji Road, Fort, Mumbai 400 001. .... (Opponent/s)** and those whose interests have been vested in the said property may submit their say at the time of hearing at the venue mentioned above. Failure to submit any say shall be presumed that nobody has any objection to this regard and further action will be taken accordingly.

**Description of the Property. :-**  
**Claimed Area**  
 Unilateral conveyance of all that piece and parcel of land admeasuring 1437 square yards equivalent to 1201.51 sq. mtrs. or thereabouts bearing CTS No. G/406 of Revenue Village Bandra, being, lying and situate at Junction of Main Avenue & 16th Road, Bazzard Scheme, Santacruz (W), Mumbai 400 054 together with the building known as "Ahiya Apartments" in the Registration District of Mumbai Suburban in favour of the Applicant Society.

The hearing is fixed on 13/02/2025 at 3.00 p.m.

Sd/-  
**(Rajendra Veer)**  
District Deputy Registrar,  
Co-operative Societies,  
Mumbai City (3) Competent Authority,  
U/s 5A of the MOFA, 1963.

Seal

**TIMEX GROUP INDIA LIMITED**  
 CIN : L33301DL1988PLC033434  
 Regd. Office: E-10, Lower Ground Floor, Lajpat Nagar- III, New Delhi-110024  
 Tel: 91-120-4741300, Email: investor.relations@timex.com, Website: www.timexindia.com

**Extract of Un-audited Financial Results for the quarter and nine months ended 31 December, 2024**  
 (Rs. in Lakhs except per share data)

| Particulars  | Quarter ended                 | Nine months ended             | Quarter ended                 | Nine months ended             |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|  | 31 December 2024 (un-audited) | 31 December 2024 (un-audited) | 31 December 2023 (un-audited) | 31 December 2023 (un-audited) |
| Total income from operations   | 11994                         | 40269                         | 9420                          | 32685                         |
| Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)  | 263                           | 2973                          | -199                          | 1838                          |
| Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)   | 263                           | 2973                          | -199                          | 1838                          |
| Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)  | 194                           | 2218                          | -149                          | 1376                          |
| Total Comprehensive Income for the period [comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)] | 194                           | 2218                          | -149                          | 1376                          |
| Equity Share Capital (Face Value of Re. 1 each)  | 1010                          | 1010                          | 1010                          | 1010                          |
| Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year  | -                             | -                             | -                             | -                             |
| Earnings Per Share (of Re. 1 each) Basic & Diluted*  | 0.07                          | 1.83                          | -0.15                         | 1.01                          |

\* Not Annualised

**Notes:-**  
 1. The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors in its meeting held on January 30, 2025.  
 2. The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter and nine months ended 31 December, 2024 filed with the BSE Ltd. under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter and nine months ended 31 December, 2024 are available on the Stock Exchange website ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and on Company website ([www.timexindia.com](http://www.timexindia.com)). The results can also be accessed by scanning the QR code given below.

For and on behalf of the Board of Directors  
**Timex Group India Limited**  
 Sd/-  
**Deepak Chhabra**  
 Managing Director  
 DIN: 01879706

Place : Noida  
 Date : 30 January, 2025

**The Phoenix Mills Limited**  
 Registered Office: The Phoenix Mills Ltd, 462, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013  
 Tel: (022) 4333 9999 Fax: (022) 2493 8388  
 E-mail: investorrelations@phoenixmills.com Website: www.thephoenixmills.com  
 CIN: L17100MH1905PLC000200

**UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2024**

The Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2024 ("Financial Results") have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on Thursday, January 30, 2025.

The Financial Results along with the Limited Review Report have been posted on the Company's webpage at [www.thephoenixmills.com/investors/FY2025/Financial-Results](http://www.thephoenixmills.com/investors/FY2025/Financial-Results) and on the websites of the Stock Exchanges i.e. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and can be accessed by scanning the QR Code provided below:

For The Phoenix Mills Limited  
 Sd/-  
**Shishir Shrivastava**  
 Managing Director  
 DIN: 01266095

Date: January 30, 2025  
 Place: Mumbai

**SUNRAJ DIAMOND EXPORTS LIMITED**  
 Regd. Office: D-9, 5th Floor, Everest Building, Plot No. 156, Tardeo Main Road, Tardeo, Mumbai - 400034.  
 CIN No.: L36912MH1990PLC057803

**EXTRACTS OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31st DECEMBER 2024**  
 (Rs. In lakhs)

| Sr. No. | Particulars  | STANDALONE    |           |   |           | CONSOLIDATED  |           |   |           |        |        |        |          |
|---------|--|---------------|-----------|---|-----------|---------------|-----------|---|-----------|--------|--------|--------|----------|
|         |  | Quarter Ended |           | Year to Date figures for the Period ended |           | Quarter Ended |           | Year to Date figures for the Period ended |           |        |        |        |          |
|         |  | 31-Dec-24     | 30-Sep-24 | 31-Dec-24                                 | 31-Dec-24 | 31-Dec-24     | 30-Sep-24 | 31-Dec-24                                 | 31-Dec-24 |        |        |        |          |
| 1       | Total Income from Operations   | 53.40         | 24.41     | 16.87                                     | 92.31     | 210.20        | 254.36    | 53.40                                     | 24.41     | 16.87  | 92.31  | 210.20 | 254.36   |
| 2       | Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)  | 11.25         | 28.06     | 21.92                                     | 31.68     | 25.47         | (46.29)   | 11.25                                     | 27.72     | 21.92  | 31.34  | 25.47  | 10.56    |
| 3       | Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)   | 11.25         | 28.06     | 21.92                                     | 31.68     | 25.47         | (46.29)   | 11.25                                     | 27.72     | 21.92  | 31.34  | 25.47  | 10.56    |
| 4       | Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)  | 11.19         | 28.03     | 21.81                                     | 31.53     | 25.69         | (72.92)   | 11.19                                     | 27.69     | 21.81  | 31.20  | 25.69  | (16.06)  |
| 5       | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | 11.19         | 28.03     | 21.81                                     | 31.53     | 25.69         | (72.92)   | 11.19                                     | 27.69     | 21.81  | 31.20  | 25.69  | (16.06)  |
| 6       | Equity Share Capital   | 533.04        | 533.04    | 533.04                                    | 533.04    | 533.04        | 533.04    | 533.04                                    | 533.04    | 533.04 | 533.04 | 533.04 | 533.04   |
| 7       | Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year  |               |           |   |           | (372.80)      |           |   |           |        |        |        | (440.28) |
| 8       | Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)   | 0.21          | 0.53      | 0.41                                      | 0.59      | 0.48          | (1.37)    | 0.21                                      | 0.52      | 0.41   | 0.59   | 0.48   | (0.30)   |
|         | (a) Basic  | 0.21          | 0.53      | 0.41                                      | 0.59      | 0.48          | (1.37)    | 0.21                                      | 0.52      | 0.41   | 0.59   | 0.48   | (0.30)   |
|         | (b) Diluted  | 0.21          | 0.53      | 0.41                                      | 0.59      | 0.48          | (1.37)    | 0.21                                      | 0.52      | 0.41   | 0.59   | 0.48   | (0.30)   |

**Note:**  
 a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Bombay Stock Exchange ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and the Company ([www.sunrajdiamonds.com](http://www.sunrajdiamonds.com)).  
 For and on Behalf of the Board of Directors,  
 Sd/-  
**Sunny Gandhi**  
 (Whole-time Director)

Place : Mumbai  
 Date : 31.01.2025

This is a public announcement for information purposes only and is not a prospectus announcement and does not constitute an invitation or offer to acquire, purchase or subscribe to securities. Not for release, publication or distribution directly or indirectly, outside India. Initial public offer of Equity Shares (as defined below) on the main board of BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE"), and together with BSE, the "Stock Exchanges" in compliance with Chapter II of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended ("SEBI ICDR Regulations").

**DrA DR. AGARWAL'S HEALTH CARE LIMITED**

Our Company was incorporated as 'Dr. Agarwal's Health Care Limited' at Chennai, Tamil Nadu as a public limited company under the Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation dated April 19, 2010, issued by the Registrar of Companies, Tamil Nadu and Andaman and Nicobar Island at Chennai ("RoC") and commenced operations pursuant to a certificate for commencement of business dated May 29, 2010 issued by the RoC. For details in relation to changes in the registered office of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 250 of the Red Herring Prospectus dated January 23, 2025 filed with the ROC ("RHP" or the "Red Herring Prospectus").

**Registered Office:** 1<sup>st</sup> Floor, Buhari Towers, No.4 Moores Road, Off Greems Road, Near Asan Memorial School, Chennai 600 006, Tamil Nadu, India  
**Corporate Office:** 3<sup>rd</sup> Floor, Buhari Towers, No.4, Moores Road, Off Greems Road, Chennai 600 006, Tamil Nadu, India; Telephone: +91 44 4378 7777;  
**Website:** www.dragarwal.com; **Contact person:** Thankinathan Arumugam, Company Secretary and Compliance Officer; E-mail: secretarial@dragarwal.com; **Corporate Identity Number:** U85100TN2010PLC075403

**THE PROMOTERS OF OUR COMPANY: DR. AMAR AGARWAL, DR. ATHIYA AGARWAL, DR. ADIL AGARWAL, DR. ANOSH AGARWAL, DR. ASHVIN AGARWAL, DR. ASHAR AGARWAL, DR. AMAR AGARWAL FAMILY TRUST, DR. ADIL AGARWAL FAMILY TRUST, DR. ANOSH AGARWAL FAMILY TRUST, DR. ASHVIN AGARWAL FAMILY TRUST AND DR. ASHAR AGARWAL FAMILY TRUST, DR. AGARWAL'S EYE INSTITUTE AND DR. AGARWAL'S EYE INSTITUTE PRIVATE LIMITED**

**INITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹1 EACH ("EQUITY SHARES") OF DR. AGARWAL'S HEALTH CARE LIMITED ("COMPANY") FOR CASH AT A PRICE OF ₹[●] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) ("OFFER PRICE") AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹1 AGGREGATING UP TO ₹3,000 MILLION BY OUR COMPANY ("FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 67,842,284 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹1 AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION ("OFFERED SHARES") BY THE SELLING SHAREHOLDERS, CONSISTING OF UP TO 2,176,239 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹1 AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY DR. AMAR AGARWAL, UP TO 2,629,829 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹1 AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY DR. ATHIYA AGARWAL, UP TO 3,071,188 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹1 AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY DR. ADIL AGARWAL, UP TO 3,614,508 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹1 AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY DR. ANOSH AGARWAL, UP TO 241,269 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹1 AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY DR. ASHVIN AGARWAL, UP TO 1,883,869 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹1 AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY DR. AGARWAL'S EYE INSTITUTE (COLLECTIVELY "THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS"), UP TO 7,083,010 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹1 AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY ARVON INVESTMENTS PTE. LTD., UP TO 16,148,150 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹1 AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY CLAYMORE INVESTMENTS (MAURITIUS) PTE. LTD., AND UP TO 30,755,592 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹1 AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY HYPERION INVESTMENTS PTE. LTD. (COLLECTIVELY "THE INVESTOR SELLING SHAREHOLDERS"), UP TO 119,315 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹1 AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY FARAH AGARWAL, UP TO 119,315 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹1 AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY URMILA AGARWAL (COLLECTIVELY "THE OTHER SELLING SHAREHOLDERS") (THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS, THE OTHER SELLING SHAREHOLDERS AND THE INVESTOR SELLING SHAREHOLDERS, COLLECTIVELY REFERRED TO AS THE "SELLING SHAREHOLDERS") AND SUCH EQUITY SHARES OFFERED BY THE SELLING SHAREHOLDERS ("OFFER FOR SALE," AND TOGETHER WITH THE FRESH ISSUE, THE "OFFER").**

**THE OFFER INCLUDES A RESERVATION OF UP TO 1,579,399 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹1, AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION (CONSTITUTING UP TO [●]% OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL), FOR SUBSCRIPTION BY ELIGIBLE EMPLOYEES ("EMPLOYEE RESERVATION PORTION") AND A RESERVATION OF UP TO 1,129,574 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION (CONSTITUTING UP TO [●]% OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL) FOR SUBSCRIPTION BY ELIGIBLE AEHL SHAREHOLDERS ("SHAREHOLDER RESERVATION PORTION"). THE OFFER LESS THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION AND THE SHAREHOLDER RESERVATION IS HERINAFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER". THE OFFER AND THE NET OFFER SHALL CONSTITUTE [●]% AND [●]% OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY, RESPECTIVELY.**

**CORRIGENDUM- NOTICE TO INVESTORS**

Please note that in the issue closing advertisement published in The Economic Times, Mint, Hindu Business Line, Financial Express, Jansatta, Business Standard and Mumbai Samachar, "Bid/ Offer Opens Today" was inadvertently mentioned instead of "Bid/ Offer Closes Today".  
 Please note that the Bid/Offer opened on Wednesday, January 29, 2025 and the Bid/Offer closed on Friday, January 31, 2025.

All capitalised terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the RHP.

For DR. AGARWAL'S HEALTH CARE LIMITED  
 On behalf of the Board of Directors  
 Sd/-  
**Thankinathan Arumugam**  
 Company Secretary & Compliance Officer

Place: Chennai  
 Date: January 31, 2025

DR. AGARWAL'S HEALTH CARE LIMITED is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offer of its Equity Shares and RHP with the RoC. The RHP is made available on the website of the SEBI at [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in) as well as on the websites of the BSE Limited, i.e., Kotak Mahindra Capital Company Limited at [investmentbank.kotak.com](http://investmentbank.kotak.com), Morgan Stanley India Company Private Limited at [www.morganstanley.com/india](http://www.morganstanley.com/india), Jefferies India Private Limited at [www.jeffries.com](http://www.jeffries.com) and Motilal Oswal Investment Advisors Limited at [www.motilalosewalgroup.com](http://www.motilalosewalgroup.com), the websites of the NSE at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and the website of the BSE at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and the website of the Company at [www.dragarwal.com](http://www.dragarwal.com). Any potential investor should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risks, please see the section titled "Risk Factors" beginning on page 33 of the RHP. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision and instead should place reliance on the RHP.

This announcement does not constitute an invitation or offer of securities for sale in any jurisdiction. The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act or any other applicable law of the United States and, unless so registered, may not be offered or sold within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold (i) within the United States solely to persons who are reasonably believed to be "qualified institutional buyers" (as defined in Rule 144A under the Securities Act) pursuant to Section 4(a) of the Securities Act, or (ii) outside the United States in "offshore transactions" as defined in and in compliance with Regulation S under the Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur. There will be no public offering of the Equity Shares in the United States.

CONCEPT



